

## कथक नृत्य सम्राट पंडति बरिजू महाराज का नधिन

### चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2022 को पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली 'कथक'को वशिष्ठ पटल पर ले जाने वाले एवं पद्म वभिषुषण, नृत्य शरिर्मण, संगीत नाटक अकादमी सरीखे अनगनित सम्मानों से सम्मानति प्रख्यात कथक नर्तक बरिजू महाराज का नधिन हो गया ।

### प्रमुख बदि

- भारत के सबसे प्रसदिध एवं पसंदीदा कलाकारों में से एक, बृज मोहन नाथ मशि्रा (पंडति बरिजू महाराज के नाम से मशहूर) शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ के कालका-बदिदिनि घराना से ताललुक रखते थे । इनका जन्म 4 फरवरी, 1938 को लखनऊ में हुआ था ।
- बरिजू महाराज के पति और गुरु अचछन महाराज, चाचा शंभु महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसदिध कथक नर्तक थे ।
- पंडति बरिजू महाराज की कलात्मक शख्सयित ऐसी रही है, जो तरक से परे मानी जाती है । वे गुरु, नर्तक, कोरथिोग्राफर, गायक और कंपोजर थे । वे तालवादय बजाते थे, कवति लिखते थे और चतिरकारी भी करते थे । उनके शषिय जाने-माने कलाकार हैं और दुनयिाभर में फैले हैं ।
- 1983 में पद्म वभिषुषण से सम्मानति बरिजू महाराज ने बॉलीवुड की कई फलिमें में भी डांस कोरथिोग्राफ कथिा, जनिमें उमराव जान, डेढ़ इश्कथिा, बाजीराव मस्तानी जैसी फलिमें शामिल हैं । पद्म वभिषुषण के अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालदिास सम्मान भी मलि चुका है ।
- वही 2012 में 'वशि्वरूपम'फलिम में कोरथिोग्राफी के लथिे उन्हें राष्ट्रीय फलिम पुरस्कार से सम्मानति कथिा गया था । इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के 'मोहे रंग दो लाल'गाने की कोरथिोग्राफी के लथिे उन्हें वर्ष 2016 में फलिमफेयर पुरस्कार मलिा था ।
- इनके साथ ही इन्हें काशी हदिू वशि्वविद्यालय एवं खैरागढ़ वशि्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मलिी ।